



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 720 राँची, गुरुवार,

26 जुलाई, 2018 (ई०)

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

-----

संकल्प

29 जून, 2018

संख्या-5/आरोप-1-118/2017-900(HRMS)-- श्री अमर कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-843/03, गृह जिला- डालटनगंज), तत्कालीन अंचल अधिकारी, बुण्डू के विरुद्ध राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3733(9)/रा०, दिनांक 18 जुलाई, 2017 के माध्यम से उपायुक्त, राँची के पत्रांक-62(i)/स्था०, दिनांक 17 अप्रैल, 2017 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित हैं-

**आरोप सं०-1** दिनांक 26 नवम्बर, 2011 को उप विकास आयुक्त, राँची द्वारा बुण्डू अंचल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में श्री अमर कुमार, अंचल अधिकारी, बुण्डू प्रखण्ड मुख्यालय में अनुपस्थित पाये गये। निरीक्षण के क्रम में यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि श्री कुमार प्रखण्ड मुख्यालय में निवास नहीं करते हैं। श्री कुमार का उक्त कृत्य स्पष्टतः विभागीय आदेश का उल्लंघन है। इनके उक्त कृत्य पर स्पष्टीकरण की माँग किए जाने पर उन्होंने अपने पत्रांक-84(ii), दिनांक 21 फरवरी, 2012 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। स्पष्टीकरण में उल्लेखित तथ्य स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

**आरोप सं०-2** श्री अमर कुमार, अंचल अधिकारी, बुण्डू का उक्त आचरण प्रथम दृष्ट्या पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1)(i) एवं (ii) के प्रतिकूल आचरण है।

उक्त आरोपों हेतु श्री कुमार से विभागीय पत्रांक-10373, दिनांक 6 अक्टूबर, 2017 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री कुमार के पत्रांक-620(ii), दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया है।

श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-12307, दिनांक 16 दिसम्बर, 2017 द्वारा उपायुक्त, राँची से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, राँची के पत्रांक-13(i)/स्था०, दिनांक 16 जनवरी, 2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री कुमार द्वारा समर्पित बचाव पक्ष एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्य को स्वीकार योग्य बताया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, राँची के मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, उपायुक्त, राँची के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री अमर कुमार, झा०प्र०से०, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बुण्डू, राँची, सम्प्रति-अनुमंडल पदाधिकारी, बसिया, गुमला को आरोप मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	AMAR KUMAR JHK/JAS/36	श्री अमर कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 843/03) तत्कालीन अंचल अधिकारी, बुण्डू, राँची, सम्प्रति-अनुमंडल पदाधिकारी, बसिया, गुमला को आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**सूर्य प्रकाश,**  
सरकार के संयुक्त सचिव।  
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/250

-----